



पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम

मुख्य अंश

- ❖ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 101.7% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 16630 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक का निवल लाभ वर्ष-दर-वर्ष 51.7% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में ₹ 4,567 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की चतुर्थ तिमाही में यह ₹ 3,010 करोड़ था।
- ❖ आस्तियों पर प्रतिलाभ(आरओए) वित्त वर्ष 2024 की चतुर्थ तिमाही से 25 बीपीएस के सुधार के साथ 0.77% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में 1.02% हो गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आरओए में 43 बीपीएस की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 2024 में 0.54% से बढ़कर 0.97% हो गया।
- ❖ इक्विटी पर प्रतिलाभ(आरओई) वित्त वर्ष 2024 की चतुर्थ तिमाही में 16.48% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में 19.23% हो गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आरओई में सुधार हुआ और यह वित्त वर्ष 2024 में 11.66% से बढ़कर 19.33% हो गया।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 के लिए निवल ब्याज आय ₹ 42782 करोड़ रुपये रही, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.7% की वृद्धि दर्शाती है। एनआईआई वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में ₹ 10757 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 24 की चतुर्थ तिमाही में ₹ 10363 करोड़ रुपये थी।
- ❖ जीएनपीए अनुपात में वर्ष दर वर्ष 178 बीपीएस का सुधार होकर मार्च 24 के 5.73% से यह मार्च 25 को 3.95% हो गया।
- ❖ एनएनपीए अनुपात में वर्ष दर वर्ष 33 बीपीएस का सुधार होकर मार्च 24 के 0.73% से यह मार्च 25 को 0.40% हो गया।
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) मार्च 24 के 95.39% से मार्च 25 को वर्ष दर वर्ष 143 बीपीएस में सुधार होकर 96.82% हो गया।
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर/रहित) मार्च 2024 के 87.93% से मार्च 2025 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 234 बीपीएस में सुधार होकर 90.27% हो गया।
- ❖ क्रेडिट लागत वर्ष-दर-वर्ष 60 बीपीएस में सुधार होकर वित्त वर्ष 2024 की चतुर्थ तिमाही में 0.81% से वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में 0.21% हो गई।
- ❖ वैश्विक कारोबार मार्च 2024 के ₹ 23,53,038 करोड़ से मार्च 2025 को वर्ष-दर-वर्ष 14.03% बढ़कर ₹ 26,83,260 करोड़ हो गया।
- ❖ वैश्विक जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 14.38% की वृद्धि दर्ज की गई जो मार्च 2024 के ₹ 13,69,713 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 15,66,623 करोड़ हो गया।
- ❖ वैश्विक अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष 13.56% की वृद्धि दर्ज की गई जो मार्च 2024 के ₹ 9,83,325 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 11,16,637 करोड़ हो गया।
- ❖ रिटेल-कृषि-एमएसएमई (रैम) अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष 15.89% की वृद्धि दर्ज की गई, जो मार्च 2024 के ₹ 5,20,050 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 6,02,682 करोड़ हो गया।



कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

प्रमुख मापदंडों में कारोबारी प्रदर्शन

जमा

- ❖ बचत जमा राशि वर्ष दर वर्ष 3.8 % की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 4,98,429 करोड़ हो गई।
- ❖ चालू जमाराशि वर्ष दर वर्ष 4.0 % की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 75,114 करोड़ हो गई।
- ❖ कासा जमा राशि वर्ष दर वर्ष 3.8 % की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 5,73,543 करोड़ हो गई।
- ❖ मार्च, 2025 तक बैंक का कासा शेयर 37.95 % रहा।
- ❖ मार्च, 2025 तक कुल सावधि जमा में वर्ष दर वर्ष आधार पर 21.5 % की वृद्धि देखी गई और यह ₹ 9,93,080 करोड़ हो गई।

अग्रिम

- ❖ मार्च, 2025 तक कुल रिटेल ऋण वर्ष-दर-वर्ष 16.5 % बढ़कर ₹ 2,59,363 करोड़ हो गया।
- ❖ बैंक ने कोर रिटेल के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष 18.2% की वृद्धि दर्ज की। कोर रिटेल क्रेडिट के अंतर्गत:
 - आवास ऋण वर्ष-दर-वर्ष 18.3% बढ़कर ₹ 1,16,312 करोड़ हो गया।
 - वाहन ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 25.5% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 26,056 करोड़ तक पहुंच गया।
- ❖ कृषि ऋण वर्ष-दर-वर्ष 14.2 % बढ़कर ₹ 1,80,625 करोड़ हो गया।
- ❖ एमएसएमई ऋण वर्ष-दर-वर्ष 16.8 % बढ़कर ₹ 1,62,693 करोड़ हो गया।

आस्ति गुणवत्ता

- ❖ सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) मार्च, 2024 के ₹ 56,343 करोड़ से मार्च, 2025 को ₹ 12,261 करोड़ घटकर ₹ 44,082 करोड़ हो गई।
- ❖ निवल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनएनपीए) मार्च, 2024 के ₹ 6,799 करोड़ से मार्च 2025 को ₹ 2,508 करोड़ घटकर ₹ 4,291 करोड़ हो गई।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में परिचालन लाभ ₹ 6776 करोड़ और वित्त वर्ष 25 में ₹26,831 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 5.6% और 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में कुल आय ₹ 36,705 करोड़ और ₹ 1,38,070 करोड़ रही, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 13.4% तथा 14.8% की वृद्धि दर्ज करती है।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही के लिए कुल ब्याज आय ₹ 31,989 करोड़ और ₹ 1,21,761 करोड़ थी, जिसमें कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 13.8% और 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही के लिए गैर-ब्याज आय ₹ 4,716 करोड़ और ₹ 16,309 करोड़ रही, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 11.0% और 21.9% की वृद्धि दर्ज करती है।
- ❖ वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2025 में 2.93% और वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही में 2.81% रहा।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 की चतुर्थ तिमाही के लिए कुल ब्याज व्यय ₹ 21,232 करोड़ और वित्त वर्ष 2025 में ₹ 78,979 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2025 में कुल ब्याज व्यय क्रमशः 19.6% और 18.2% बढ़ा।
- ❖ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए परिचालन व्यय ₹ 8697 करोड़ और वित्त वर्ष 2025 में ₹ 32,261 करोड़ रहा, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 6.1% और 13.1% बढ़ा।

पूंजी पर्याप्तता

- ❖ मार्च, 2024 के 15.97% के मुकाबले मार्च, 2025 को सीआरएआर 17.01% रहा।
- ❖ मार्च, 2025 को टियर-I पूंजी 14.05% पर (सीईटी-1 मार्च, 2025 को 12.33% पर रही जबकि यह मार्च, 2024 को 11.04% थी और एटी-1 मार्च, 2025 को 1.72% पर रही जबकि यह मार्च 2024 को 2.13% थी) तथा टियर-II मार्च 2025 को 2.96% पर रही।

दक्षता/उत्पादकता अनुपात

- ❖ वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही में अग्रिमों पर वैश्विक प्रतिलाभ 8.36% और वित्त वर्ष 25 में 8.34% रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 की चतुर्थ तिमाही में यह 8.44% और वित्त वर्ष 24 में 8.28% था।
- ❖ वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही में जमाराशियों की वैश्विक लागत में वर्ष दर वर्ष 27 बीपीएस से 5.36% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 25 में 32 बीपीएस से 5.23% तक वृद्धि हुई।
- ❖ वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही में निवेश पर प्रतिलाभ में वर्ष दर वर्ष 24 बीपीएस से 7.02% तक तथा वित्त वर्ष 2025 में 21 बीपीएस से 6.99% तक वृद्धि दर्ज की गयी।



पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

- ❖ प्रति कार्मिक कारोबार मार्च 2024 के ₹ 23.84 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 26.86 करोड़ हो गया। प्रति शाखा कारोबार मार्च 2024 के ₹ 225.25 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को ₹ 253.55 करोड़ हो गया।
- ❖ वित्त वर्ष 24 की चतुर्थ तिमाही में प्रति कार्मिक निवल लाभ ₹ 12.64 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही में ₹ 19.25 लाख हो गया। वित्त वर्ष 24 की चतुर्थ तिमाही प्रति शाखा निवल लाभ ₹ 119.44. लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही में ₹ 181.75 लाख हो गया।

प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि

- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गया तथा एएनबीसी के 40.36 % पर बना रहा।
- ❖ कृषि अग्रिम राष्ट्रीय लक्ष्य 18% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गया तथा एएनबीसी के 18.08 % पर बना रहा।
- ❖ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रदत्त ऋण 10% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गया तथा एएनबीसी के 10.07 % पर बना रहा।
- ❖ कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण 12% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गया तथा एएनबीसी के 13.50% पर बना रहा।
- ❖ सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त ऋण 7.50% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर गया है तथा एएनबीसी के 8.12% पर बना रहा।

वित्तीय समावेशन

- ❖ प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों की संख्या मार्च 2024 के 5.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 को 5.43 करोड़ हो गई।
- ❖ मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन निम्नानुसार हैं:

(संख्या लाख में)

जन सुरक्षा योजना नामांकन	31.03.2024	31.03.2025
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)	63.82	73.08
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	254.54	291.97
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	38.53	46.81

डिजिटल प्रगति और पहल

- ❖ डिजिटल लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2024 को 659 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 को 997 करोड़ हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 51% की वृद्धि दर्ज करती है।
- ❖ पीएनबी वन सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 31.03.2024 को 174 लाख से बढ़कर 31.03.2025 को 214 लाख हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23% की वृद्धि दर्ज करती है।
- ❖ पीएनबी वन के माध्यम से यूपीआई लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2024 के 121 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 314 लाख हो गई, जो कि साल दर साल आधार पर 160% की वृद्धि दर्ज करता है।
- ❖ व्हाट्सएप बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31.03.2024 को 28.7 लाख से बढ़कर 31.03.2025 को 61.6 लाख हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 115% की वृद्धि दर्ज करती है।
- ❖ 31.03.2025 तक पीएनबी वन बिज़ (150+ सुविधाओं वाला कॉर्पोरेट एम-बैंकिंग ऐप) उपयोगकर्ताओं की संख्या 99 हजार है।
- ❖ नई पहल की गई:
 - व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से एफडी खाते खोलना और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना
 - व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से 15जी/एच फॉर्म जमा करना
 - डिजिटल एनआरआई खाता खोलना
 - कॉर्पोरेट आईबीएस के माध्यम से ब्लैक पॉजिटिव पे सिस्टम अपलोड करना
 - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्बन क्रेडिट की सब्सिडी महिला किसान लाभार्थियों को प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से उनके आधार से जुड़े सीबीडीसी वॉलेट में देना।

वितरण नेटवर्क

- ❖ 31 मार्च 2025 तक बैंक की 10,189 घरेलू शाखाएँ और 2 अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ हैं। कुल शाखाओं में से बैंक की 63.4% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- ❖ शाखाओं का वितरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	शाखाओं की संख्या	% शेयर
ग्रामीण	3940	38.7%
अर्ध शहरी	2517	24.7%
शहरी	2005	19.7%
महानगर	1727	16.9%

- ❖ बैंक का वितरण नेटवर्क में 11,822 एटीएम और 33,349 बीसी भी शामिल हैं, जिससे 31.03.2025 तक टच प्वाइंट की कुल संख्या 55,360 हो गई है।



पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon !

कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

पुरस्कार एवं सम्मान

- ❖ **EASE 6.0 के अंतर्गत, ओवरऑल फ़र्स्ट रनर अप** - पीएनबी 2 थीम में विजेता
 - ✓ तकनीक और डेटा संचालित क्षमता निर्माण
 - ✓ डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित व्यवसाय सुधार
- ❖ **CIMSME बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार** - सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक (विजेता) और सर्वश्रेष्ठ MSME अनुकूल बैंक (उपविजेता)
- ❖ ICAI द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए PSB की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सिल्वर शील्ड
- ❖ क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन CIBIL (TU CIBIL) से उपभोक्ता श्रेणी में डेटा गुणवत्ता पुरस्कार "PSU सर्वश्रेष्ठ DQI-FY'25"
- ❖ पीपल लैब्स द्वारा उद्योग-अकादमिक सम्मेलन में 'नई पीढ़ी के कार्यबल के लिए अग्रणी पहल के लिए संस्थागत उत्कृष्टता पुरस्कार'।

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति

- ❖ फेसबुक: 28,38,227 फ़ॉलोअर्स <https://www.facebook.com/pnbindia/>
- ❖ X: 4,66,920 फ़ॉलोअर्स <https://twitter.com/pnbindia>
- ❖ इंस्टाग्राम: 8,98,013 फ़ॉलोअर्स <https://www.instagram.com/pnbindia>
- ❖ लिंकडइन: 1,77,591 फ़ॉलोअर्स <https://in.linkedin.com/company/pnbindia>
- ❖ यूट्यूब: 2,52,101 सब्सक्राइबर <https://www.youtube.com/pnbindia>
- ❖ थ्रेड्स: 37,791 फ़ॉलोअर्स <https://www.threads.net/@pnbindia>

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07.05.2025